



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 518 राँची, मंगलवार
23 आषाढ, 1937 (श०)
14 जुलाई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

25 जून, 2015

संख्या-- 1/स्था0/पदस्थापना/01/15-...2221./न0वि0वि0-- दिनांक-24 जून, 2015 को विभागीय स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में विभाग में कार्यरत निम्न पदाधिकारियों का उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय पाण्डेय, झा.प्र.से.	कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम, धनबाद	सहायक निदेशक, SUDA नगर विकास विभाग	
2	श्री हीरा चौधरी , सहायक अभियंता	पूर्व में कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर पंचायत के	कार्यपालक पदाधिकारी, सिमडेगा नगर पंचायत,	विभाग में योगदान की तिथि से गढ़वा नगर पंचायत प्रभार की तिथि

		लिए अधिसूचित		तक अनुपस्थित माने जायेंगे।
3	श्री गंगाराम ठाकुर, सहायक अभियंता	पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत	कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा नगर परिषद	
4	श्री चन्द्र किशोर यादव, सहायक अभियंता	कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद	कार्यपालक पदाधिकारी, सरायकेला नगर परिषद	
5	श्री एजरेंस मिंज, सहायक अभियंता	कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा नगर परिषद	विशेष पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी.पी.एल. दास,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
